

प्रेस नोट दिनांक-27.06.2021

(1). दिनांक 26.06.2021 को धर्मद्वेष पुत्र रामफल यादव निवासी नारायणपुर थाना कमासिन जिला बांदा अपनी चचेरी बहन सीमा को उसकी ससुराल महुई थाना फतेहगंज जिला बांदा से विदा करा कर गांव नारायणपुर जा रहा था कि बदौसा के पास पीछे लगे हुए 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने ग्राम चौरा व ओरा के बीच ओवरटेक करके मोटरसाइकिल खड़ी कर तमंचे के बल पर रोक कर सीमा के गले से हार वा एक कान की बाली छीनकर भागे थोड़ी दूर जाने पर मोटर साइकिल से गिर पड़े और ओरा गांव की तरफ भागे आगे शोर गुल सुनकर ग्राम ओरा के पास जानवर चरा रहे ग्रामीणों द्वारा दोनो बदमाशों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों के नाम (1). राजू यादव उर्फ कल्ली पुत्र मुकुंदलाल यादव उम्र 20वर्ष, (2). करन प्रजापति पुत्र लल्लू निवासीगण जसाईपुर थाना तिंदवारी उम्र 18 वर्ष को घायल अवस्था में प्राथमिक स्वस्थ केंद्र पहाड़ी में भर्ती कराया गया है लूटा गया हार का टुकड़ा तमंचा कारतूस वा घटना में प्रयोग की गई बिना नंबर अपाचे मोटर साइकिल बरामद हुई है।

घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं076/2020 धारा 392/411 भादवि0 तथा अवैध तमंचा कारतूस की बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 77/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया

(3). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 4418 थाना राजापुर अंतर्गत दिनांक 26/06/2021 को समय 20:57 बजे इवेंट संख्या 13911 द्वारा घटनास्थल हनुमान गंज मोहल्ला थाना राजापुर से कॉलर अमन सोनकर (मोबाइल नंबर 9125729924) बताया गया कि डेढ़ दो साल की बच्ची मिली है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर ने बताया कि एक डेढ़ दो साल की बच्ची मिली है नाम पता नहीं बता पा रही है। पीआरवी कर्मियों ने आस पास पता किया तो कोई जानकारी नहीं मिली। पीआरवी कर्मियों बच्ची को लेकर थाना पहुंचे तो जानकारी हुई कि एक बच्ची के गुम होने की सूचना थाने में आई है। थाना पुलिस द्वारा बच्ची के चाचा मोहन प्रसाद को थाने बुलाया गया और बच्ची चुनकी d/o सीताराम r/o हनुमान गंज थाना राजापुर को बच्ची को सकुशल सुपुर्द किया गया। बच्ची को सकुशल पा कर बच्ची के चाचा ने up112 और थाना पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना की।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - c अमित कुमार

पायलट - hg विवेक कुमार

(3). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 27.06.2021 को एंटी रोमियों टीम महिला थाना द्वारा पुरानी कोतवाली चौराहा, बस स्टैंड, काली देवी चौराहा, ट्रैफिक चौराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम अहिरा में, एंटी रोमियों टीम थाना मारकुण्डी द्वारा मारकुण्डी रेलवे स्टेशन एवं ग्राम दीपू कोलान में, एंटी रोमियों टीम थाना पहाड़ी में कस्बा पहाड़ी, एंटी रोमियों टीम थाना मऊ द्वारा बाजार, बस स्टैण्ड मऊ तथा आनन्दी माता मन्दिर, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एंटी रोमियो टीम थाना द्वारा ग्राम तिवारीपुरवा बस स्टैंड, व राजापुर कस्बे में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम सिंगल पुरवा व रेलवे स्टेशन में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(4). आज दिनांक-27.06.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में डकैत गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु 04 टीमों ने जंगलों में कॉम्बिंग की। श्री श्रवण सिंह प्रभारी स्वाट टीम द्वारा गाड़ा कछार, पिसड़ाहार, चुरेह के जंगलों में, श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम एवं पीएसी बल द्वारा मुनका पहाड़ एवं जंगलों में तथा श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के नेतृत्व में थाना मानिकपुर पुलिस टीम के साथ धर्माचुआ जंगल चुरेहकेशरुआ जंगल में, श्री संदीप कुमार पटेल चौकी प्रभारी सरैया द्वारा चौकी टीम के साथ गाड़ा कछार के जंगलों में, श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी द्वारा पीएसी टीम के साथ अमरावती के जंगलो में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।